

November 3, 2021

DCS-CRD BSE Limited First Floor, New Trade Wing Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai 400 023 Stock Code: 533229	Listing Compliance National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, 'G' Block Bandra- Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400 051 Stock Code: BAJAJCON
--	--

Dear Sir/Madam,

**Sub: News Paper Publication of Extracts of Consolidated Unaudited Financial Results
for the quarter and half year ended September 30, 2021**

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies each of Economic Times (English Daily) and Jai Rajasthan (Hindi Daily) both dated November 3, 2021 for publication of extracts of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2021.

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Bajaj Consumer Care Limited



Vivek Mishra
Head (Legal) & Company Secretary
Membership No.: A21901

Encl: as above

Bajaj Consumer Care Ltd

(Formerly Bajaj Corp Ltd)

117, 11th Floor, Bajaj Bhavan, Jamnalal Bajaj Marg, 226 Nariman Point, Mumbai - 400021

Tel.: +91 22 22049056 / 58 / 8633 | CIN: L01110RJ2006PLC047173 | Web: www.bajajconsumercare.com

Registered Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur- 313 001, Rajasthan

Tel.: +91 0294-2561631, 2561632

UPDATING CREDIT ASSESSMENT

Banks Eye One Social, Climate Framework

Plan to include environment in risk management policy

Dheeraj Tiwari
@timesgroup.com

New Delhi: Banks are looking to create a common framework for environmental, social and governance (ESG) issues while carrying out credit assessment and include climate risk as part of their risk management policy.

A senior executive told ET that the Indian Banks' Association (IBA) is looking into the matter.

Bank on 'em
Common framework for ESG to be part of credit assessment

Banks to include climate risk as part of risk management policy

Investors/lenders seek ESG policy of cos before investing

IBA to coordinate for a common framework

SBI has initiated discussions on devising an internal framework

Prime Minister Narendra Modi said on Monday at the COP26 global climate summit that India will meet a target of net zero emissions by 2070.

"Already, international investors have started demanding information about the ESG policy of the companies before investing into the equity and liability products. The time is conducive to decide about the ESG framework for Indian banking," the executive said on condition of anonymity, adding that companies are aligning their policies with the commitment their countries are agreeing to.

Another executive, who did not wish to be identified either,

said, "Right now we are looking at whether to share the best practices followed across the globe and leave it to the individual banks to decide on adoption of policy best suited to them or create a framework and give it to member banks to build on that."

Experts said banks need to plan in accordance with the country's climate goals, and that managing climate risk for a sustained growth is what the ESG framework ensures.

"Banks, being a conventional provider of debt capital, also want climate risk mitigated for sustained growth and recovery of capital," said Dinesh Anand, national managing

partner - Risk & ESG at Grant Thornton Bharat.

Another senior banker said already some lenders are following their individual policies at some level and that there needs to be an agreement on the common metrics before attempting to implement them.

"The effects of risk assessment need to be understood and it may take some time to arrive at a consensus," he said.

Last month, the chairman of the country's largest bank, State Bank of India (SBI), Dinesh Kumar Khara, had said the bank was also in the process of identifying climate risks that have the potential to generate a substantive change in business.

SBI Ex-chairman Arrest Case Now Sub-judice, Govt Can't Intervene

Sources say complaint by loan defaulter, not probe agencies

Dur Bureau

New Delhi: The government is seized of the former State Bank of India (SBI) chairman Pratip Chaudhuri's arrest in a non-performing loan settlement case, but feels any official intervention is not possible at this stage as the matter is sub-judice, sources privy to the developments told ET.

Moreover, the arrest is on a complaint filed by a loan defaulter and not government investigation agencies, they said.

In this case, the process of law would have to be followed and there is very little the gov-

ernment can do. However, on the larger issues of protection to bankers on bonafide business decisions, the officials said the new framework provides that protection.

Chaudhuri was arrested by the Rajasthan police on Monday on complaints from a loan defaulter in a decade-old soured-loan case.

Chaudhuri was arrested from his Delhi residence by the Rajasthan police and taken to Jaipur on Monday. His bail application was rejected by the local magistrate.

"The government is seized of the matter...but there is nothing that can be done as the case is now sub-judice," said an official adding that the due process of law would have to be followed.

Also, in this case no government agencies are involved directly or indirectly, government sources said. The arrest is by the local police on a complaint filed by a borrower.

The arrest relates to the 'Garh Rajwada' hotel project in Jaipur, financed by SBI in 2007. The account had become a non-performing asset (NPA) category in June 2010. SBI sold the loans to the Alchemist Asset Reconstruction Co (ARC) in March 2014 after Chaudhuri had retired.

Govt, Flipkart Tie Up to Sell Artisan's Goods

Our Bureau

New Delhi: The rural development ministry has tied up with e-commerce giant Flipkart to sell products made by millions of artisans and vendors in rural areas.

It's 10 crore existing customers, thus substantially scaling their outreach.

"India's homegrown e-commerce marketplace Flipkart has signed a memorandum of understanding (MoU) with the ministry of rural development to help artisans and vendors in rural areas.

"The move will help empower local businesses and self-help groups (SHGs), especially those that are led by women, by bringing them into the e-commerce fold," it said.

"We are identifying and collaborating with all possible partners who are willing to help in this cause and we will continue to do so," said NRM and the procurement minister.

Prices of Petrol and Diesel Hiked, Again

New Delhi: Petrol and diesel prices rose again on Tuesday by 35 paise per litre, to new highs.

Petrol prices have risen to ₹110.04 per litre in Delhi and ₹115.85 in Mumbai. Diesel now costs ₹98.43 a litre in Delhi and ₹106.62 in Mumbai. In the past 17 months, petrol and diesel prices have risen by about ₹35 per litre and ₹29 per litre, respectively.

RO:0896
RO.DT:02.11.2021,W:20.00,H:20.00

bajaj CONSUMER CARE

Bajaj Consumer Care Limited
CIN: L01110RJ2006PLC00173
Regd. Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur 313 001, Rajasthan
Phone: 0294-2561961-32 Website: www.bajajconsumer.com
Email: compliance@bajajconsumer.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended Sept. 30, 2021 (₹ In lacs)

Particulars	Unaudited	Unaudited	Unaudited
	Quarter ended Sept. 30, 2021	Half Year ended Sept. 30, 2021	Quarter ended Sept. 30, 2020
Total income from operations (net)	21,617.49	43,289.27	22,691.65
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*	5,648.54	11,570.72	6,901.72
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,650.99	9,541.27	5,692.22
Total Comprehensive Income (net of tax)	4,697.91	9,579.84	5,714.52
Equity Share Capital	1,475.40	1,475.40	1,475.40
Reserves (excluding Revaluation Reserve)			
Earnings Per Share* (of ₹ 1/- each)			
Basic :	3.15	6.47	3.86
Diluted:	3.15	6.46	3.86

* there is no Exceptional and/or Extraordinary items.
The Financial details on standalone basis are as under: (₹ In lacs)

Particulars	Unaudited	Unaudited	Unaudited
	Quarter ended Sept. 30, 2021	Half Year ended Sept. 30, 2021	Quarter ended Sept. 30, 2020
(a) Total income from operations (net)	21,514.93	43,044.34	22,530.50
(b) Profit Before Tax	5,725.41	11,647.33	6,937.90
(c) Profit After Tax	4,725.07	9,612.31	5,775.18

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 01, 2021.
- The above is an extract of detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Company i.e. www.bajajconsumer.com.

For Bajaj Consumer Care Limited
Sd/-
Jaideep Mandi
Managing Director
DIN : 06938480
bajaj GROUP

Place : Mumbai
Date : 01.11.2021

GET FREE RENT INSURANCE PLUS CASHBACK & OTHER BENEFITS WORTH ₹ 23,000/-

When you pay rent using your credit card on **mb**

Secure your future rent payments

Get up to ₹3,000/- cashback

Get up to ₹20,000/- partner offers

Get exciting reward points on your credit card

Log on to magicbricks.com/payrent

Paying rent on mb with your credit card rewards you and secures your family's future as well. You get to avail free rent insurance which offers you insurance cover equal to the cumulative rent paid on mb. There are also other benefits, which go a long way in securing your family's future.

OTHER BENEFITS

- ₹ 5,000 per week for 104 weeks towards hospitalization costs
- ₹ 1 Lac in case of an accidental demise or permanent disability

India's No.1 Prosperity Site

15 LAC+ LISTINGS | MB PRIME | OWNER SERVICES | HOME LOANS | PAY RENT | PROPERTY SERVICES

STOVE KRAFT LIMITED

Registered Office: #81, Harohalli Industrial Area, Kanakapura Taluk, Rammagara District - 562112.
Ph. : 080 28016222 | Email: cs@stovekraft.com
Website: www.stovekraft.com
CIN No. : L29310KA1999PLC025387

Revenue

₹577.05 Cr.

+75.5%

EBITDA

₹60.77 Cr.

+35.59%

PAT

₹36.45 Cr.

+27.9%

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2021

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30 th Sep 2021	30 th Sep 2020	30 th Sep 2021	30 th Sep 2020	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Revenue from Operations	3,628.44	2,367.65	5,770.49	3,288.36	8,589.57
2	EBITDA*	406.03	352.20	607.71	448.18	1,127.95
3	Profit Before Tax	320.66	268.78	455.94	285.01	811.84
4	Profit After Tax for the period	229.25	268.78	364.53	285.01	811.84
5	Total Comprehensive Income for the period	226.92	281.85	360.36	298.08	835.13
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	325.91	247.17	325.91	247.17	325.90
7	Earnings per Share** Basic (in Rs.) (Face Value of Rs.10/- each)	7.03	10.87	11.19	11.53	26.61
8	Earnings per Share** Diluted (in Rs.) (Face Value of Rs.10/- each)	6.93	10.87	11.02	11.53	26.25

*Excludes Other Income **EPS is not annualized for the quarter ended September 30, 2021, September 30, 2020 and Half Year Ended September 30, 2021 and September 30, 2020

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.stovekraft.com.
- The above unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2021 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meetings held on November 03, 2021.
- Figures for the previous periods have been regrouped/reclassified, wherever necessary.

For & On Behalf of the Board
Rajendra Gandhi
Managing Director

Touch Control Induction Cooktop

The smarter way to cook

1800 Watts

Smart Timer for Hands-Free Cooking

1 Year Warranty

35% Savings Compared to LPG Cooking

MADE WITH PRIDE IN INDIA
Follow us on: @stovekraft

आज का चित्र



मरने से पहले एक बार खुल के जी लेना... इसी को कहते हैं जिंदगी से इश्क कर लेना....!

ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जीएसटी कलेक्शन में बड़ा योगदान

कोरोना काल के पश्चात प्रत्येक परिवार अपने स्वयं के वाहन द्वारा ही यातायात करना पसंद करता है लेकिन सेमीकंडक्टर की कमी के चलते ग्राहकों को समय पर कारें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं फिर भी वाहन खरीदने में बैंकों का बहुत कम व्यय दर पर ऋण उपलब्धता बड़ा आकर्षण है।

आधुनिक तकनीक के वाहन अत्यंत सुविधाजनक, कम लागत में रखरखाव एवं गंतव्य तक पहुंचने की गारंटी है, साथ ही वारंटी एवं विक्री पश्चात सेवा का सर्वाधिक फायदा ग्राहक को मिल रहा है। वाहन समाज में प्रतिष्ठा का भी ज्योत्क है। नए वाहनों में ईंधन की कम खपत पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अतः वाहन खरीद मध्यम वर्गीय परिवार की प्रथम प्राथमिकता होने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र निरंतर प्रगति पर रहने की उम्मीद है।

नक्षत्र तलेसरा मैनेजिंग डायरेक्टर बडोला हुंडई, उदयपुर

कचन सेवा संस्थान में किया धन्वतरि भगवान का पूजन

उदयपुर, 2 नवम्बर। आज धन्तेरस को भगवान धन्वतरि आरोग्यता के देवता का पूजन कर सभी संस्थान के सदस्यों को मिठाई वितरण कर लंबे स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। डॉ. छैल बिहारी शर्मा, डॉ. कानन वाला लोब, जीवन सिंह मेहता, आर के सिंघवी और एम एस मोगार ने दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दीं।

धन्तेरस पर धूमधाम से हुई नाकोड़ा भैरुजी की महाआरती

उदयपुर, 2 नवम्बर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धन्तेरस पर शहर की उन्नति, समृद्धि एवं रोग निवारण की कामना को लेकर नाकोड़ा भैरु जी एवं श्री भगवान पार्श्वनाथ की 108 दीपक की महाआरती में भक्तजन झूम उठे। आरती से पूर्व श्रमण संघीय प्रवर्तक सुकन मुनि ने महामंगलिक दिया। अशोक नगर माया मिशन के पर स्थित श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ ज्योतिष कार्यालय के रूप रजत भवन में मंगलवार को धन्तेरस पर श्रमण संघीय प्रवर्तक सुकन मुनि ने सुबह 10.45 बजे महामंगलिक दिया। इस दौरान उपप्रवर्तक अमृत मुनि आदि ठाणा 10 का भी संघ को आरिचिन प्राप्त हुआ।

उदयपुर, 2 नवम्बर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धन्तेरस पर शहर की उन्नति, समृद्धि एवं रोग निवारण की कामना को लेकर नाकोड़ा भैरु जी एवं श्री भगवान पार्श्वनाथ की 108 दीपक की महाआरती में भक्तजन झूम उठे। आरती से पूर्व श्रमण संघीय प्रवर्तक सुकन मुनि ने महामंगलिक दिया। अशोक नगर माया मिशन के पर स्थित श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ ज्योतिष कार्यालय के रूप रजत भवन में मंगलवार को धन्तेरस पर श्रमण संघीय प्रवर्तक सुकन मुनि ने सुबह 10.45 बजे महामंगलिक दिया। इस दौरान उपप्रवर्तक अमृत मुनि आदि ठाणा 10 का भी संघ को आरिचिन प्राप्त हुआ।

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा - मेवाड़ कार्यकर्णी का विस्तार

उदयपुर, 2 नवम्बर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा - मेवाड़ के प्रवक्ता रणवीर सिंह जोलावास ने बताया कि संभाग प्रभारी म. शक्ति सिंह कारोहि की अनुसंधान पर जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र सिंह रलावता ने जिला कार्यकर्णी का विस्तार करते हुए गोविन्द सिंह राठौड़ (भीम का खेड़ा) को संगठन मंत्री तथा कार्यकर्णी सदस्य रूप में निश्वर सिंह चौहान, प्रीतम सिंह चंडवत एवं महीप सिंह झाला का मनोमन किया। जिलाध्यक्ष रलावता ने बताया कि संगठन के विस्तार से महासभा के इतिहास, संस्कृति के संरक्षण - संवर्धन कार्यों में मजबूती तथा समाज के सभी वर्गों को सहयोग करने में युवा शक्ति की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से कार्यकर्णी का विस्तार किया गया।

उदयपुर, 2 नवम्बर। शाम चार बजे, 76, ओ.टी.सी., उदयपुर स्थित मुख्य कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम रिंयाज तहसीन, मणिक आनंद खुरीद नवाब को खिराजे अकिदत पेथ की गई। संस्था अध्यक्ष डा. सरवत खान ने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि 2014 में स्थापित, इस संस्था ने अब तक उदयपुर में उर्दू इन्टरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, नेजल मुषायरे, सेमिनार एवं राष्ट्रीय एकता संगोष्ठियां आयोजित की। गालिब इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली व अनुमन तरक्री उर्दू (हिन्दी) दिल्ली द्वारा उदयपुर आकर अपने उर्दू सेमिनार आयोजित करवाए गए। संस्था द्वारा गालिब और प्रेमचन्द के साहित्य पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। 2016 से 2019 तक लगातार निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का डेढ़ माह तक आयोजन कर उदयपुर के नागरिकों को उर्दू भाषा लिखना, पढ़ना का प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में भी निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का अलापुरा अनुमन चैक और खांजीपीर में भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में उर्दू के साथ-साथ सरकारी स्कूल में तीसरी जुबान की हैसियत से पढ़ाई जाने वाली भाषाओं पर भी विशेष कार्य किया जाएगा।

उदयपुर, 2 नवम्बर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा - मेवाड़ के प्रवक्ता रणवीर सिंह जोलावास ने बताया कि संभाग प्रभारी म. शक्ति सिंह कारोहि की अनुसंधान पर जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र सिंह रलावता ने जिला कार्यकर्णी का विस्तार करते हुए गोविन्द सिंह राठौड़ (भीम का खेड़ा) को संगठन मंत्री तथा कार्यकर्णी सदस्य रूप में निश्वर सिंह चौहान, प्रीतम सिंह चंडवत एवं महीप सिंह झाला का मनोमन किया। जिलाध्यक्ष रलावता ने बताया कि संगठन के विस्तार से महासभा के इतिहास, संस्कृति के संरक्षण - संवर्धन कार्यों में मजबूती तथा समाज के सभी वर्गों को सहयोग करने में युवा शक्ति की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से कार्यकर्णी का विस्तार किया गया।

उदयपुर, 2 नवम्बर। शाम चार बजे, 76, ओ.टी.सी., उदयपुर स्थित मुख्य कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम रिंयाज तहसीन, मणिक आनंद खुरीद नवाब को खिराजे अकिदत पेथ की गई। संस्था अध्यक्ष डा. सरवत खान ने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि 2014 में स्थापित, इस संस्था ने अब तक उदयपुर में उर्दू इन्टरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, नेजल मुषायरे, सेमिनार एवं राष्ट्रीय एकता संगोष्ठियां आयोजित की। गालिब इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली व अनुमन तरक्री उर्दू (हिन्दी) दिल्ली द्वारा उदयपुर आकर अपने उर्दू सेमिनार आयोजित करवाए गए। संस्था द्वारा गालिब और प्रेमचन्द के साहित्य पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। 2016 से 2019 तक लगातार निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का डेढ़ माह तक आयोजन कर उदयपुर के नागरिकों को उर्दू भाषा लिखना, पढ़ना का प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में भी निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का अलापुरा अनुमन चैक और खांजीपीर में भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में उर्दू के साथ-साथ सरकारी स्कूल में तीसरी जुबान की हैसियत से पढ़ाई जाने वाली भाषाओं पर भी विशेष कार्य किया जाएगा।

उदयपुर, 2 नवम्बर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा - मेवाड़ के प्रवक्ता रणवीर सिंह जोलावास ने बताया कि संभाग प्रभारी म. शक्ति सिंह कारोहि की अनुसंधान पर जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र सिंह रलावता ने जिला कार्यकर्णी का विस्तार करते हुए गोविन्द सिंह राठौड़ (भीम का खेड़ा) को संगठन मंत्री तथा कार्यकर्णी सदस्य रूप में निश्वर सिंह चौहान, प्रीतम सिंह चंडवत एवं महीप सिंह झाला का मनोमन किया। जिलाध्यक्ष रलावता ने बताया कि संगठन के विस्तार से महासभा के इतिहास, संस्कृति के संरक्षण - संवर्धन कार्यों में मजबूती तथा समाज के सभी वर्गों को सहयोग करने में युवा शक्ति की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से कार्यकर्णी का विस्तार किया गया।

उदयपुर, 2 नवम्बर। शाम चार बजे, 76, ओ.टी.सी., उदयपुर स्थित मुख्य कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम रिंयाज तहसीन, मणिक आनंद खुरीद नवाब को खिराजे अकिदत पेथ की गई। संस्था अध्यक्ष डा. सरवत खान ने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि 2014 में स्थापित, इस संस्था ने अब तक उदयपुर में उर्दू इन्टरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, नेजल मुषायरे, सेमिनार एवं राष्ट्रीय एकता संगोष्ठियां आयोजित की। गालिब इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली व अनुमन तरक्री उर्दू (हिन्दी) दिल्ली द्वारा उदयपुर आकर अपने उर्दू सेमिनार आयोजित करवाए गए। संस्था द्वारा गालिब और प्रेमचन्द के साहित्य पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। 2016 से 2019 तक लगातार निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का डेढ़ माह तक आयोजन कर उदयपुर के नागरिकों को उर्दू भाषा लिखना, पढ़ना का प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में भी निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का अलापुरा अनुमन चैक और खांजीपीर में भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में उर्दू के साथ-साथ सरकारी स्कूल में तीसरी जुबान की हैसियत से पढ़ाई जाने वाली भाषाओं पर भी विशेष कार्य किया जाएगा।

उदयपुर, 2 नवम्बर। शाम चार बजे, 76, ओ.टी.सी., उदयपुर स्थित मुख्य कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम रिंयाज तहसीन, मणिक आनंद खुरीद नवाब को खिराजे अकिदत पेथ की गई। संस्था अध्यक्ष डा. सरवत खान ने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि 2014 में स्थापित, इस संस्था ने अब तक उदयपुर में उर्दू इन्टरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, नेजल मुषायरे, सेमिनार एवं राष्ट्रीय एकता संगोष्ठियां आयोजित की। गालिब इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली व अनुमन तरक्री उर्दू (हिन्दी) दिल्ली द्वारा उदयपुर आकर अपने उर्दू सेमिनार आयोजित करवाए गए। संस्था द्वारा गालिब और प्रेमचन्द के साहित्य पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। 2016 से 2019 तक लगातार निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का डेढ़ माह तक आयोजन कर उदयपुर के नागरिकों को उर्दू भाषा लिखना, पढ़ना का प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में भी निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का अलापुरा अनुमन चैक और खांजीपीर में भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में उर्दू के साथ-साथ सरकारी स्कूल में तीसरी जुबान की हैसियत से पढ़ाई जाने वाली भाषाओं पर भी विशेष कार्य किया जाएगा।

समारोह पूर्वक मनाया इण्डियन माईनिंग दिवस मनाया

उदयपुर, 2 नवम्बर। माईनिंग इंजिनियर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के राजस्थान चेप्टर उदयपुर ने हिंदुस्तान जिक लि. के साथ मिलकर आज जावर माईंस में "भारतीय खनन उद्योग में पर्यावरण, सामाजिक और शासन" विषय के साथ इण्डियन माईनिंग दिवस समारोह पर मनाया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एम.ई.ए.आई के पूर्व अध्यक्ष ए.के.कोठारी ने सभी सदस्यों को प्रति वर्ष 1 नवम्बर को सभी सदस्यों को देश के सर्वांगिक विकास हेतु खनन प्रक्रिया में समुचित वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग की शपथ दिलाई। विशिष्ट अतिथि जिंके पूर्व सीईओ व वर्तमान में लिंक के बोर्ड सदस्य अखिलेश जोशी ने माईनिंग संस्थाओं द्वारा संभाग के सभी विश्वविद्यालयों में मेन्टरिंग की आवश्यकता, खनन के प्रति समाज में सौहार्द एवं जागरूकता व हमारी कार्यशैली विद्यापीठ - आयुर्वेद प्रकोष्ठ विभाग की ओर से हुआ आयोजन

आयुर्वेद को जीवन में अंगीकार करें : प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत

धन्वन्तरी एवं लक्ष्मी जी की व ग्रंथों की विधि विधान से की पूजा अर्चना

उदयपुर, 2 नवम्बर। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय दीपोत्सव के पहले दिन धन्तेरस पर आयुर्वेद प्रकोष्ठ विभाग में मंगलवार को पांडित परमेश्वर चौबीसा ने धन्वन्तरी एवं लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत, कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर, वरिष्ठ लेखाधिकारी डॉ. हरेश शर्मा, रजिस्ट्रार डॉ. हेमशंकर दाधीच, द्वारा की व देश में अमन चैन की कामना की। इस अवसर पर प्रो. सारंगदेवोत ने कहा धन्वन्तरी की व ग्रंथों की पूजा एवं उनका स्मरण मात्र से ही समस्त रोगों का नाश हो जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ग्रंथों के सम्पादन का कार्य तेजी से होना चाहिए पाश्चात्य विद्वान हमारे ग्रंथों का सतही ज्ञान प्राप्त कर पेटेंट करवा लेते हैं जबकि हमारी विरासत पर हमारा ही स्वतन्त्र हो। बीमारी में इलाज की अपेक्षा रोकथाम के परम्परागत और घरेलू उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर डॉ. धमन्द्र राजोरा कुष्कांत कुमावत, डॉ. घनश्याम सिंह भीण्डर, बीएल सोनी, जितेन्द्र सिंह चौहान, डॉ. प्रकाश शर्मा, मुर्तजा अली, लहनाथ योगी, राजेन्द्र वर्मा, कालु सिंह, सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बडोला हुंडई उदयपुर-राजसमंद में धन्तेरस के शुभ मुहूर्त में दी 55 कारों की डिलीवरी

मुहूर्त में 55 कारों की डिलीवरी दी ग्राहकों में अथाह उत्साह एवं खुशी का माहोल देखा गया, शोरूम में मेले सा वातावरण दिखा, 2 वर्षों की अल्ट्रावर्ध में कार ग्राहकों ने बडोला हुंडई को विशेष स्थान दिया साथ ही विक्री पश्चात सेवा में भी बडोला हुंडई को अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर दिया। निदेशक नक्षत्र तलेसरा ने बताया की बडोला कार्स प्रा. ली. हुंडई ग्राहकों को जल्दी ही अति आधुनिक सर्विस सेंटर उपलब्ध करवाने वाले है।



माईनिंग दिवस पूरे देश में खनन उद्योग से संबंधित वर्तमान परिदृश्य, तकनीकी उन्नति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए माईनिंग इंजिनियर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की विभिन्न संस्थाओं द्वारा मनाया जाता है। समारोह के मुख्य अतिथि हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा ने हिन्दुस्तान जिक द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकलापों पर प्रकाश डाला और भविष्य में पर्यावरण सुधार हेतु उर्जा उत्पादन में कोयले के स्थान पर सौर उर्जा को प्राथमिकता देने पर बल दिया। जावर

गुजरात में सबसे कम उम्र के 15 वर्षीय मरीज का हृदय प्रत्यारोपण

सिमस मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में संपन्न हुआ

उदयपुर, 2 नवम्बर। अहमदाबाद के सिमस मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जूनगढ़ के एक 15 वर्षीय किशोर मरीज की हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला यह गुजरात का सबसे कम उम्र का मरीज है। सिमस मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में संपन्न हुआ यह 18वां हृदय प्रत्यारोपण है। प्रतिरूपित हृदय सूरत निवासी 14 वर्षीय धार्मिक काकडिया का था। डॉक्टर द्वारा धार्मिक को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनके परिवार ने धार्मिक के हृदय और अन्य अंग दान कर दिए थे। हृदय प्राप्तकर्ता मोहित 11वीं कक्षा का छात्र है। वह दिल की मांसपेशियों की बीमारी डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित था, जिसके कारण बीते दो वर्षों से हृदय के लिए शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त संचरण करना कठिन था। उन्होंने हृदय प्रत्यारोपण के लिए नौ महीने तक इंतजार किया और 30 अक्टूबर को सिमस मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी करवाई। सिमस मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कार्डियोथोरोसिक और हृदय प्रत्यारोपण विभाग के निदेशक और प्रमुख तथा इस सर्जरी का नेतृत्व करने वाले डॉ. धीरेन शाह ने कहा कि हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला मोहित गुजरात में सबसे कम उम्र के मरीज हैं, और हाल में उनकी हालत स्थिर है। बाल रोगी के लिए सही मिलाने योग्य हृदय मिलना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर और दिल के आकार का मेल होना आवश्यक होता है। संयोग से मोहित अंतर्गत दिवाली से पूर्व उदयपुर शहर में महिला एवं बाल विकास समिति द्वारा संचालित संजीवनी दिव्यांग आश्रम में मिठाई वितरण का कार्य शुरू किया गया। हज्र कमेटे ऑफ इंडिया ने 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू उदयपुर 2 नवम्बर। हज्र कमेटे ऑफ इंडिया ने हर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की आखिरी दिनांक 31 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं इस बार सऊदी अरब की सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत विशिष्ट परिस्थितियों में हज्र 2022 का आयोजन क्या जाना प्रस्तावित है हज्र यात्रियों को कोविड-19 के लिए दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए आवेदन हज्र कमेटे ऑफ इंडिया की साइट पर ऑनलाइन करनी होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹.300 ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी। इस बार भी 65 वर्ष से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी।

अनुमन तरक्री उर्दू की बैठक

उदयपुर, 2 नवम्बर। शाम चार बजे, 76, ओ.टी.सी., उदयपुर स्थित मुख्य कार्यालय सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम रिंयाज तहसीन, मणिक आनंद खुरीद नवाब को खिराजे अकिदत पेथ की गई। संस्था अध्यक्ष डा. सरवत खान ने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि 2014 में स्थापित, इस संस्था ने अब तक उदयपुर में उर्दू इन्टरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, नेजल मुषायरे, सेमिनार एवं राष्ट्रीय एकता संगोष्ठियां आयोजित की। गालिब इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली व अनुमन तरक्री उर्दू (हिन्दी) दिल्ली द्वारा उदयपुर आकर अपने उर्दू सेमिनार आयोजित करवाए गए। संस्था द्वारा गालिब और प्रेमचन्द के साहित्य पर संगोष्ठियां आयोजित की गईं। 2016 से 2019 तक लगातार निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का डेढ़ माह तक आयोजन कर उदयपुर के नागरिकों को उर्दू भाषा लिखना, पढ़ना का प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में भी निःपुल्क उर्दू कार्यपाला का अलापुरा अनुमन चैक और खांजीपीर में भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में उर्दू के साथ-साथ सरकारी स्कूल में तीसरी जुबान की हैसियत से पढ़ाई जाने वाली भाषाओं पर भी विशेष कार्य किया जाएगा।

उदयपुर, 2 नवम्बर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा - मेवाड़ के प्रवक्ता रणवीर सिंह जोलावास ने बताया कि संभाग प्रभारी म. शक्ति सिंह कारोहि की अनुसंधान पर जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र सिंह रलावता ने जिला कार्यकर्णी का विस्तार करते हुए गोविन्द सिंह राठौड़ (भीम का खेड़ा) को संगठन मंत्री तथा कार्यकर्णी सदस्य रूप में निश्वर सिंह चौहान, प्रीतम सिंह चंडवत एवं महीप सिंह झाला का मनोमन किया। जिलाध्यक्ष रलावता ने बताया कि संगठन के विस्तार से महासभा के इतिहास, संस्कृति के संरक्षण - संवर्धन कार्यों में मजबूती तथा समाज के सभी वर्गों को सहयोग करने में युवा शक्ति की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से कार्यकर्णी का विस्तार किया गया।


स्वाइन से बचाव एवं उपचार के लिए तुरन्त असरकारक जागृति फिवरिन काढा

स्वाइनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभप्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। JAGRITI FEVRIN KADA

स्वाइन से बचाव एवं उपचार के लिए तुरन्त असरकारक जागृति फिवरिन काढा

स्वाइनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभप्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। JAGRITI FEVRIN KADA

चमकते सितारे



कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल गोगुन्दा में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं धन्वन्तरी जयन्ती समारोह का आयोजन

उदयपुर, 2 नवम्बर। कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल स्थित परिसर में मंगलवार को पंच दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धन्वन्तरी जयन्ती के साथ की गई। धन्वन्तरी जयन्ती के अवसर पर कोविड-19 की पालना के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रांगण स्थित प्राथना स्थल पर कला आश्रम फाउण्डेशन के मुख्य प्रबन्धक न्यासी डॉ. दिनेश खत्री, संरक्षक न्यासी डॉ. सरोज शर्मा एवं मधुरम खत्री द्वारा भगवान धन्वन्तरी का दुधामिषेक के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। डॉ. दिनेश खत्री ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं धन्वन्तरी जयन्ती पर पंच दीपोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धन्वन्तरी जयन्ती राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वन्तरी के आशीर्वाद से महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में आयुर्वेद पद्धति एवं उसकी महत्ता, गुणों आदि पर व्याख्यान भी किया गया। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां बेहतर मानी जाती हैं और समस्या को जड़ से खत्म करने में सक्षम होती हैं। डॉ. सरोज शर्मा एवं मधुरम खत्री ने भी महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं हॉस्पिटल स्टाफ को पंच दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की।

आनंद सबके लिए प्रकल्प की शुरुआत

उदयपुर, 2 नवम्बर। मारवाड़ी युवा मंच उदयपुर एवं लेक सिटी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राष्ट्रीय प्रकल्प आनंद सब के लिए के अंतर्गत दिवाली से पूर्व उदयपुर शहर में महिला एवं बाल विकास समिति द्वारा संचालित संजीवनी दिव्यांग आश्रम में मिठाई वितरण का कार्य शुरू किया गया। हज्र कमेटे ऑफ इंडिया ने 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू उदयपुर 2 नवम्बर। हज्र कमेटे ऑफ इंडिया ने हर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की आखिरी दिनांक 31 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं इस बार सऊदी अरब की सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत विशिष्ट परिस्थितियों में हज्र 2022 का आयोजन क्या जाना प्रस्तावित है हज्र यात्रियों को कोविड-19 के लिए दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए आवेदन हज्र कमेटे ऑफ इंडिया की साइट पर ऑनलाइन करनी होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹.300 ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी। इस बार भी 65 वर्ष से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी।

उदयपुर, 2 नवम्बर। मारवाड़ी युवा मंच उदयपुर एवं लेक सिटी शाखा के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राष्ट्रीय प्रकल्प आनंद सब के लिए के अंतर्गत दिवाली से पूर्व उदयपुर शहर में महिला एवं बाल विकास समिति द्वारा संचालित संजीवनी दिव्यांग आश्रम में मिठाई वितरण का कार्य शुरू किया गया। हज्र कमेटे ऑफ इंडिया ने 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की आखिरी दिनांक 31 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं इस बार सऊदी अरब की सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत विशिष्ट परिस्थितियों में हज्र 2022 का आयोजन क्या जाना प्रस्तावित है हज्र यात्रियों को कोविड-19 के लिए दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए आवेदन हज्र कमेटे ऑफ इंडिया की साइट पर ऑनलाइन करनी होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹.300 ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी। इस बार भी 65 वर्ष से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी।

जागृति फिवरिन काढा

स्वाइनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभप्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। JAGRITI FEVRIN KADA

स्वाइन से बचाव एवं उपचार के लिए तुरन्त असरकारक जागृति फिवरिन काढा

स्वाइनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभप्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। JAGRITI FEVRIN KADA